



Rotary
Club of Navi Mumbai Sunrise



ROTARY CLUB OF NAVI MUMBAI SUNRISE

Club ID: 76727

District ID: 3142

Charter Date: 29th June 2007



Suryodaya



Stephanie Urchik
RI President 2024-25



Rtn. Dinesh Mehta
RID 3142 DG 2024-25



Rtn. Sanjay Panigrahi
President 2024-25




Rtn. Amrendra K. Saha
Secretary 2024-25





Club Editor
Rtn Sanjay Sharma

Issue December 2024



"The Magic of Rotary"

"In every corner of the globe, Rotary brings the magic of hope, compassion, and change. Like magicians of goodwill, Rotarians weave together threads of service, turning dreams into reality and challenges into triumphs. With each project, each act of kindness, we unleash the power of Rotary to create lasting impact and transform lives."



Sanjay Sharma
Club Editor

From Editor's Desk

Greetings to all of you!!!

Merry Christmas. The message of Christmas is to be joyful and to make joyful. It also conveys the timeless message of love, hope and joy. Sunrisers, as Rotarians, are always finding ways to spread joy and hope. It comes with selfless love for others. I hope this Christmas each one of you, your family members and friends have been visited by Santa bestowing the gift abundance. God only gives those who are ready to share it with others and undoubtedly you are all Santas for less privileged ones.

As we move towards the end of this year, we should take stock of all that we have achieved and areas where we would like to invest more resources in our meetings.

I am proud and happy to share that with the help and active participation of each one of you we have been able to bring out our monthly edition without failure. This is something we should all be happy and proud of. This magazine is a commentary of our achievements and aspirations. It reinforces our identity as Sunrisers who are part of a unique family called Rotary.

Rotary Pranam
Sanjay Sharma

**Message from President International
Year 2024**



Stephanie Urchik
RI President 2024-25

Rotary is at its best when we foster a sense of inclusion and belonging in our clubs. In fact, I would go so far as to say that belonging is The Magic of Rotary itself.

With a focus on inclusivity and belonging, it is easier to be united in a common purpose. When we are committed to one another and focused on our goals, we are most effective.

Rotary's Action Plan can help. The Action Plan comes with tools you can use to collect feedback, assess your club's strengths and weaknesses, and address challenge

The world is changing, and our clubs can't afford to stand still. But the changes we make need to be consistent and strategic – building on one another toward a greater vision. The Action Plan can help you work toward that vision and create effective change within your club.

Following the Action Plan and addressing suggestions from the community will go a long way to fostering the sense of belonging we want all Rotary members to feel in their clubs.

That's why expanding our commitment to diversity, equity, and inclusion is so important. Committing ourselves to each other's well-being is the first step to expanding our reach, allowing us to spread Positive Peace in these troubled times.

Peacebuilding is one of our top priorities, and one of the most effective ways we can build peace is with our Rotary Peace Fellowships, through which peace and development professionals learn how to prevent and end conflict.

We offer the fellowships through our Rotary Peace Centers at leading universities around the globe, where more than 1,800 Rotary Peace Fellows have graduated. And thanks to a \$15.5 million gift from the Otto and Fran Walter Foundation, we can continue supporting peacebuilders in more regions with the next peace center at Bahçeşehir University in Istanbul. Opening another peace center is a monumental achievement, and it is my great honor to invite you to celebrate at next year's Rotary Presidential Peace Conference at the Istanbul center. The three-day conference 20-22 February will highlight the many ways our family of Rotary advances peacebuilding. Registration for the conference is officially open. I hope to see you there.

The 2025 Rotary Presidential Peace Conference has great potential for our peacebuilding efforts – but only if we have your support.

The truth is, we're not going to bring peace to the world, end polio, or grow membership by waving a wand and saying some funny words. It's up to you. You create the magic with every project completed, every dollar donated, and every new member inducted.

I love my Rotary family and I know you do too. That's why I know that together, we can make every club and district simply irresistible. This year, let us change the world by embracing The Magic of Rotary.



Rtn. Dinesh Mehta
RID 3142 DG 2024-25

Dear Awesome President and Members of the Rotary Club of Navi Mumbai Sunrise,

As we are on the threshold of the sixth month of what has, indeed, been an awesome Rotary Year, thus far, we need to keep the momentum going. One way of keeping the momentum going is to have constantly greater goals. Momentum is akin to riding a bicycle. You get to stay upright and move forward so long as you keep the momentum.

Your Club has been doing yeoman service to the community service and you have been participating in District Projects and events with great enthusiasm and it is my humble request to you, to keep the momentum going.

I urge you to take up projects in all the areas of focus of Rotary International. December is designated " Disease Prevention and Control" month. If you haven't already , do take up a project in this sphere.

I believe in encouraging Clubs to Think Big. You do not have to start by being an expert. Remember, the expert in anything was once a beginner. People with momentum can get so much done. Momentum begets momentum and the best way to start is to Make A Start.

As a wise man, once said, " Success does not come to you, you've got to go to get it". So , Jyoti joins me in urging all you awesome Rotarians to keep up the momentum and create magic of Rotary for the community at large

Warm Rotary Regards,
DG Dinesh Mehta



Rtn. Sanjay Panigrahi
President 2024-25

Dear Sunrisers,

As we close the final chapter of 2024, I reflect with immense pride and gratitude on the impactful work we've accomplished together. December, being the month of goodwill and giving, perfectly encapsulated the spirit of Rotary.

We began the month with a meaningful celebration of International Day of Persons with Disabilities, organising sports and creative activities for students with intellectual disabilities. Witnessing their joy and enthusiasm was truly heartwarming. This was followed by an Organ Donation and Thalassaemia Awareness talk at the NSS Camp, ensuring our message of health and selflessness reached young minds.

Our monthly Happy School initiative, 'Dada Ji Ki Kahani', brought smiles and life lessons to the children of Inampuri School, Taloja. Celebrating their birthdays reminded us of the simplicity and happiness of childhood.

As Rotarians, our mission is to serve, empower, and inspire, and each of these projects reaffirmed our commitment to these values. I am deeply grateful to all the Sunrisers who contributed their time, energy, and resources to make these initiatives successful.

As we step into 2025, let us continue to push boundaries, innovate, and bring lasting change to our communities. Together, we are stronger, and together, we can make miracles happen.

Wishing you and your families a joyful and prosperous New Year!

Yours in Rotary Service,
Rtn. Sanjay Panigrahi
President
Rotary Club of Navi Mumbai Sunrise

Projects Done

DIABETIC MUKT RAVIVAR

Date: 1st December, 2024

Location: Central park, Kharghar

Number of beneficiaries: 100

Number of Members participated: 8

Cost: Rs. 1,000

**Done in association with Medicity Hospital,
Kharghar**



World Disability Day - Sports Day celebration



Date: 3rd December, 2024

Location: Sahayogini Palak Sanstha

Number of beneficiaries: 75

Number of Members participated: 8

Cost: Rs. 8,000

**Done in association with Rotaract Club of Navi
Mumbai Sunrise.**

Projects Done

Awareness talk on De-addiction

Date: 7th December, 2024
Location: P.J. Mhatre Vidyalaya, Navade Village, Panvel
Number of beneficiaries: 100
Number of Members participated: 6
Cost: Rs. 1,500

Done in partnership with NSS Wing of Pillai College of Arts, Commerce, and Science



Awareness talk on Thalassemia and Organ donation

Date: 9th December, 2024
Location: P J Mhatre School, Navade, Panvel
Number of beneficiaries: 100
Number of Members participated: 7
Cost: Rs. 2,000



Projects Done

Sports kit Distribution to school

Date: 10th December, 2024
Location: P J Mhatre School, Navade, Taloja
Number of beneficiaries: 500
Number of Members participated: 15
Cost: Rs. 8,000

Guest Speaker: Rtn. Shaila Patel



SESSIONS ON DE-ADDICTION AWARENESS

Date: 10th December, 2024
Location: Pillai College of Management, Panvel
Number of beneficiaries: 1000
Number of Members participated: 8
Cost: Rs. 2,000



Projects Done

CPR awareness and Demo

Date: 10th December, 2024
Location: P.J. MHATRE VIDYA NAVADE
Number of beneficiaries: 100
Number of Members participated: 8
Cost: Rs. 2,000



Diabetic Mukh Ravivar

Date: 15th December, 2024
Location: Central Park, Kharghar
Number of beneficiaries: 100
Number of Members participated: 6
Cost: Rs. 4,500



Projects Done

Distribution of essential items to orphanage Child

Date: 17th December, 2024
Location: Beneficiaries Orphan children at Children of The World (India) Trust, Nerul
Number of beneficiaries: 30
Number of Members participated: 6
Cost: Rs. 5,000



Ration and vitamin powder distribution

Date: 21st December, 2024
Location: Panvel Municipal Corporation
Number of beneficiaries: 6
Number of Members participated: 8
Cost: Rs. 3,600

Projects Done

Wheelchair Donation to Kharghar Railway station

Date: 22nd December, 2024

Location: Kharghar Railway station

Number of beneficiaries: Numerous

Number of Members participated: 4

Cost: Rs. 5,000



Dada ji ki Kahaniya with Birthday Celebration

Date: 23rd December, 2024

Location: Happy school, Inampuri School, Taloja

Number of beneficiaries: 35

Number of Members participated: 5

Cost: Rs. 3,000

In association with IWC of Navi Mumbai Sunrise

"COMPASSION IS A PASSION" IN ROTARY



By Rtn. M. Prakash
Past President

The Rotarian by his nature and attributes is a kind person, with empathy deeply rooted in his feelings. The mission statement "SERVICE ABOVE SELF" itself indicates, he takes an extra step and action, when his heart quivers on realising the situation needing his support. The word COMPASSION can be described as having genuine sympathy and concerns, as well as showing kindness and empathetic to others sufferings and misfortunes, and responding to the same by action.

Being compassionate elicits happiness and raises a feeling of good emotional feelings after the task. It also generates one's self-regard and supports the positive mindset. It raises your approval in the community latently who regard you as a compassionate person. It also cultivates the connectedness in the community and induces to the practice of gratitude.

In general, many in the society are empathetic which is characterized by awareness of other people's emotions and to feel the same from their own perspective. But compassion is characterized by the 'desire to take action' to help the other persons. In short, compassion is a feeling to get motivated by action to help alleviate the suffering of others, tolerating the distressing and uncomfortable emotion that may arise, in the course of action.

When we use the word PASSION in the context of 'community service', having passion means, what?, who?, why? are you willing to suffer for that arise. Is this project/ service worth going through and enduring hardship? Is this worth sacrificing your comforts?

"COMPASSION IS A PASSION" IN ROTARY

The passion requires first to understand the deeper purpose and value and the same needs to transcend any selfish motive and self-soaked moments of aura and validations from others. The value needs to penetrate and go beyond the logically and rationally driven thought process, at times. It is imperative for an individual to believe in it and communicate the deeper purpose and value it generates. The VALUE factor shall be the constant driving force constantly with regular internal reinforcement.

Thus one shall remember that anything of value lasting and worthwhile in life takes effort, sacrifice, commitment and perseverance. In short, it is obvious that when 'Compassion' is integrated with 'Passion' the result is excellence in the service to the community.

Further, to cite an example, the various projects by Sunrisers of Rotary club, so far in various avenues of service, is an indicator of the passion and commitment in the compassionate activities of the community so far. The collective team work and the participatory leadership leads to prove excellence and proves that SERVICE ABOVE SELF can be attained only by passion.

To illustrate, further, a compassionate service with passion and the resulting blessed moments, and the gratitude that can be reaped is for sure. A small poem is penned below which reflects that compassion is a passion, that can change the world and make it different

In the depths of humanity, a flame burns bright
A fire that fuels the soul, a guiding light
Compassion, a virtue, that echoes through the ages
A call to care, to comfort, and to turn life's pages

It's a passion that drives us, to reach out and to share
To ease the suffering, to show we truly care
A gentle touch, a listening ear, a helping hand
These simple acts, can change a life, and make a stand

Compassion is a passion, that burns within the heart
A flame that flickers, but never departs
It's the whispered words, of comfort and of peace
The calming presence, that brings release

"COMPASSION IS A PASSION" IN ROTARY

It's the nurse who tends, the wounded and the worn
The teacher who guides, the student who is torn
The volunteer who serves, the stranger who is in need
The everyday hero, who plants a seed

Compassion is a passion, that knows no bounds or space
It's the bridge that connects, the human heart and face
It's the whispered prayers, of those who seek to heal
The gentle rain, that brings new life and reveals

It's the voice that speaks, for those who cannot speak
The advocate who stands, for the rights of the meek
The activist who fights, for justice and what's right
The change-maker, who shines a light

Compassion is a passion, that's contagious and bright
It's the smile that's shared, the laughter that ignites
It's the warmth that's spread, the love that's displayed
The kindness that's shown, in every single way

So let us tend, this flame that burns within
Let us nurture it, and let it grow and spin
Let us share it, with a world that's in need
Let us show compassion, and plant a seed

For compassion is a passion, that can change the world
It's the key that unlocks, the hearts that are unfurled
It's the balm that heals, the wounds that are so deep
It's the love that's shared, in every single sleep.

“अनुभव”



By Rtn. Pradip Sinharay
Past President

कुछ ना कहके भी कुछ कहने की एहसास, कुछ ना पाके भी कुछ पाने की एहसास,
कुछ सुनते हुए और भी सुनने के अभिलाष,
कुछ सुनने के बाद वो भुलने के एहसास,
मन को विचलित करते है।

कुछ कहने से पहले विभ्रान्ति के एहसास,
कुछ कहने के बाद भ्रान्ति के एहसास,
कुछ ना मानने पर अशांति के एहसास,
कुछ मानने पर भी असमंजस की एहसास,
मन को चन्चल रखता है।

कुछ समझाने की एहसास,
कुछ समझने की एहसास,
कुछ देर साथ रहने के एहसास,
कुछ पल बिछरने के एहसास,
मन को भावुक बनाते हैं।

कुछ आशानुरूप होने के एहसास,
कुछ निराशाजनक एहसास,
कुछ प्यार भरा लम्हों के एहसास,
कुछ वेदना भरा एहसास,
मन को बहलाता है।

मन की यह विचित्र स्थिति
जिस से परिचालित होती है,
उसे अनुभव कहते हैं।
जिन्दगी के हर परिस्थितियों
में प्रेमानुभव,
प्राणीमात्र काम्य है।

“End Thalassemia Now”



By Rtn. Bhal Shekhar Chilana
IPP

Thalassemia Awareness and Action

Thalassemia is a genetic blood disorder that affects millions worldwide, causing severe anemia and other health complications. It is a condition that not only burdens individuals but also impacts families and communities. Recognizing the critical need for action, Rotary @Navi Mumbai has taken the initiative to spread awareness, prevent new cases, and support those affected.

1. Thalassemia Minor: Individuals with one faulty gene are carriers. They usually do not have symptoms but can pass the gene to their children.
2. Thalassemia Major: Individuals with two faulty genes face severe anemia, requiring lifelong blood transfusions and medical care.

The disorder occurs when both parents are carriers (Thalassemia Minor), giving a 25% chance of their child having Thalassemia Major. Without early screening, couples may remain unaware of their carrier status, leading to devastating outcomes.

Rotary stands as a beacon of hope, championing better health and quality of life for all. Together, let us unite in this mission, raising awareness and ensuring that no child suffers needlessly. With collective efforts, we can bring about a thalassemia-free future.

Rotary @ Navi Mumbai has launched the "End Thalassemia Now" initiative to combat this challenge. Our multifaceted approach includes:

1. Awareness Drives: Educating the public about Thalassemia, its causes, symptoms, and treatment options.
2. Screening Camps: Organizing free premarital and prenatal screening to identify carriers and prevent the inheritance of the disorder.
3. Support for Patients: Providing access to affordable treatments, including blood transfusions and iron chelation therapy.
4. Advocacy: Partnering with healthcare professionals and organizations to promote the adoption of Thalassemia prevention programs nationwide.



“End Thalassaemia Now”

Our mission is to ensure no family suffers the pain of losing a child to this preventable disease. By spreading awareness, we aim to reduce new cases and improve the quality of life for those already affected.

Join hands with us in this life-saving endeavor. Together, we can build a Thalassaemia-free future!

Rtn Bhal Shekhar Chilana
Member core Team ETN Rotary @ Navi Mumbai

“Blessings of Nature in My Kitchen Garden”



By Rtn. Chhaya Taralaker

This New Year, my kitchen garden welcomed a delightful visitor—Red Pierrot butterflies. I had the privilege of observing their entire life cycle on my magic leaf plant (Bryophyllum), which became their host for past few years. The process was fascinating: tiny eggs were laid on the thick, fleshy leaves of the plant, and soon larvae emerged, feeding on the leaves and leaving visible marks. Though the foliage appeared damaged, it paved the way for new life.

As the larvae grew into plump caterpillars, they eventually transformed into pupae, forming chrysalis on the same plant. A few days later, vibrant Red Pierrot butterflies emerged, bringing a burst of color and joy to my mornings.

This cycle repeated throughout the month, making my garden a hub of life and a symbol of biodiversity. Despite being a common butterfly species, the Red Pierrots are threatened by growing pollution and dust. Yet, their presence here feels like a blessing, a reminder of nature’s resilience and beauty.

The magic leaves may have suffered, but they nurtured this incredible transformation. Observing this process has been a magical experience, showcasing the wonders of nature and filling my mornings with peace and happiness.



साल के आखिरी महीने में चंद लाइनें पूरे ग्रुप के लिए



By Rtn. Pradip Sinharay
Past President

जिंदगी से हर पल
एक मौज़ रोज मिली

एक अच्छा दोस्त मांगा था
पर मुझे तो दोस्तों की फौज मिली,

ये ग्रुप कोई वाशिंग पाउडर नहीं
जो पहले इस्तेमाल करें
फिर विश्वास करे

ग्रुप तो जीवन बीमा है
जिंदगी के साथ भी..
जिंदगी के बाद भी

मुझे नहीं पता कि
मैं एक बेहतरीन ग्रुप मेंबर हूँ,
या नहीं,
पर यहां सभी मेंबर
बेहतरीन है... 🌸🌸🌸🌸😊😊

“अपनी आदतों में बदलाव लाकर दूर करें स्ट्रेस”



By Rtn. Mahesh Agarwal
Past president (2018-19)

क्या कभी आप स्ट्रेस में होते हैं ,तो ध्यान देने की कोशिश की है कि ये आ कहाँ से रहे हैं ?अगर कभी ध्यान देने की कोशिश करें तो आपको जानने में देर नहीं लगेगी कि ये आपके कर्म और सोचने के ढंग से जन्म ले रहे हैं ।

दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो जरा भी स्ट्रेस नहीं लेते आज सबसे बड़ी मुश्किल ये है की ज्यादातर लोग तनाव को जीवन का एक सहज हिस्सा मानने लगे हैं ,वो ये नहीं मानते कि जीवन में जितना भी तनाव है ,वो उन्ही का पैदा किया हुआ है ।

स्ट्रेस की सबसे बड़ी वजह यही है कि हम अपनी आदतों का गुलाम बन कर जीते हैं और आदतें बदलने का दर्द लेने की कोशिश भी नहीं करते ।अगर जल्दी उठने की आदत नहीं है तो सुबह अपने लिए कम समय मिलता है ,कम समय में ज़्यादा काम करने पड़ते हैं तो तनाव शुरू हो जाता है क्योंकि बिना योग प्राणायाम के सुबह खत्म हो गई ।अब अस्वस्थ हुए तो मिज़ाज खराब होगा सोच में नकारात्मक आएगी इन सबके चलते रिश्ते खराब होंगे । सोचिए ऐसे भी लोग हैं जो न जो सुबह जल्दी उठते हैं न योग व्यायाम करते हैं और नशा करते हैं तंबाकू खाते हैं शराब पीते हैं और तामसिक भोजन भी करते हैं ।आपको ऐसा लगता है ये तनाव कम रहे हैं लेकिन लंबी दौड़ में आप पाते हैं कि सारे तनाव इन्ही से पैदा होते हैं ।इनके साथ कई दूसरी आदतें भी हैं आलस करना ,काम को कल पर टालना ,फ़ोकस से काम नहीं करना ,दूसरों की बुराई करना और रिश्तों में बेईमानी करना ,आप खुद ही व्यवस्था करते हो कि तनाव आप पर बरसे

लेकिन ऐसा नहीं है कि स्थिति बदल नहीं सकती ।आपको कुछ बेसिक बदलाव लाने हैं ।एक अच्छी आदत से दूसरी अच्छी आदत जोड़ कर आपकी जिंदगी में बदलाव ला सकते है और एक बार ऐसा होना शुरू हुआ तो तो आप बहुत कम समय में बहुत तेज़ी से अपने जीवन को बदल सकते हैं

इसकी शुरुआत रात को समय पर सोने से करे,ये जान ले नींद से बढ़कर कोई डॉक्टर नहीं क्योंकि रात को समय पर सोयेंगे तो सुबह समय से जाग कर योग और दूसरे कार्यों के लिए समय निकाल सकेंगे ऐसा करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे और सकारात्मक सोचेंगे ।ऑफिस में खुश रहकर काम करेंगे आपके अधीन कर्मचारी भी खुश रहेंगे ।अपनी जिम्मेदारियों को समझ कर उनका निर्वाह अच्छे तरीके से करेंगे और घर में क्लेश कम होगा ।इस तरह आप एक पॉजिटिव चक्र में प्रवेश करेंगे ।स्ट्रेस से हमेशा के लिए छुटकारा मिलेगा ।

सारा खेल आदतों का है ,छोटी छोटी आदतों पर ध्यान दे और खराब आदत को अच्छी आदत में बदल कर देखें । एक नया खुशदिल पॉजिटिव सोच वाला व्यक्ति अपने को पाएंगे

“Friendship”



**By Rtn. Shaila Patel
Youth Director**

Friendship is a universal human experience that transcends culture, age, and background. Friends play a vital role in our lives, serving as a support system through life's challenges and celebrations. They offer a listening ear, reduce stress and anxiety, and boost our mood through shared experiences.

Good friends demonstrate essential qualities. They listen actively. They are supportive and encouraging. They are reliable and respectful of boundaries. To nurture friendships Prioritize spending time with friend. Share thoughts, feelings, and experiences with reliable friends. Express gratitude and acknowledge their support. Practice forgiveness and letting go of grudges.

Friendship is a precious gift that enriches our lives. By valuing and investing in our friendships, we can reap the benefits of strong social connections. A person who has good friends is the richest person. Never lose a good friend because of some misunderstanding. Let's cherish and nurture our friendships! LUCKY ONE'S HAVE GOOD FRIENDS.

**Club Committee and BOD
for
TITAN YEAR 2025-2026**

SL NO	POSITIONS	Proposed NAME Rtn.(2025-26)
A	OFFICE BEARERS	
1	CLUB PRESIDENT	A.K.SAHA
2	CLUB SECRETARY	NEELESH MISHRA
3	CLUB TREASURER	JASMINA THAKKAR
4	CLUB VICE PRESIDENT	Pradeep Sinhary
5	IPP	SANJAY PANIGRAHI
6	CLUB EXECUTIVE SECRETARY/DIRECTOR	Rtn Srivatsan Iyengar
7	SARGENT AT ARMS	Shaleen Tonk
8	JOINT SECRETARY	Rtn Srivatsan Iyengar
B	MENTORS	
9	CLUB- MENTOR	Dr.R. RAJARAM
10	CLUB- MENTOR	K.M.SHIROLKAR
11	CLUB- MENTOR	VENUGOPAL VENKATARAMAN
12	CLUB- MENTOR	Dr. C.S.ADHIKARI
13	CLUB- MENTOR	Ashoke Mahindrakar

**Club Committee and BOD
for
TITAN YEAR 2025-2026**

C	DIRECTORS	
14	Director Club Admin	Shaleen Tonk
15	Director Public Relation	RAJESH RATHORE
16	Director Membership	C.L.SRIVASTAVA
17	Director Vocational & Legal	Rtn Santhosh Shukla
18	Director Service Project (Medical)	Rtn Dr Sunil Jadhav
19	Director Service Project (Non Medical)	Rtn. NEELAM SINGH
20	Director Special project (Medical)	Rtn Dr. Rajiv palvia
21	Director Service project (International)	Rtn Mahesh Agarwal
22	Director TRF	MANOJ NAYAK
23	Director Youth (New Generation)	SHAILA PATEL
24	Director CLC	SANCHAYAN MAJUMDAR
25	Director CLC	Rtn Nilanjan Ghosh
26	Director CLC & ENTERTAINMENT	Rtn Sanjeev Doshi
27	Director- District Coordination and Global grant	BISWARANJAN SABAT(new)
28	Director - Environment	Rtn. Chhaya Tarlekar
29	Director- CSR	Rtn. Rajesh Naik
	CHAIRMAN	
30	Chairman RCNM Society TRUST	DILIP CHAUDHARY
31	Chairman MEGA Project (Thrust Area)	M.PRAKASH
32	Chairman Startegic Planning & DEI	Rtn Rajiv Chohan
33	Chairman Thalassemia and Organ donation awreness	Rtn Bhal Shekahr Chilana
34	CHAIRMAN CLC	Rtn V Raghav Raju
	SUPPORTING OFFICERS	
35	Club Learning Facilitator	Rtn Dr. Mita Raja Ram
36	Bulletin Editor	ALPESH THAKKAR

Rotary yearly Picnic

The Rotary Club of Navi Mumbai Sunrise organized a fun-filled Club Picnic at Samundra Sneha, Nagaon Beach, Alibag, on 28th and 29th December 2024.

The journey by bus was packed with entertainment, laughter, and camaraderie. The evening featured a delightful cultural program with exciting twists, followed by an enjoyable time at Nagaon Beach, a cozy fire bonfire, a lively houseie game, and dancing under the stars.

A special thanks to Rtn Rajesh Rathod, Rtn Sanjeev Doshi, and Rtn Rakesh Sumra, whose tireless efforts ensured a memorable experience for everyone.

We are also deeply grateful to Rtn Bhimrao Gend and Rtn Amol, who offered their beautiful resort, Samudra Sneha, for our stay and provided excellent hospitality with delicious food and comfortable arrangements.

It was a perfectly planned outing, and all members had a fantastic time together!



Rotary yearly Picnic





Rotary 
Club of Navi Mumbai Sunrise



OVER 100 YEARS OF SERVICE

